

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.10.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 06.10.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.भरत निषाद पुत्र रामचन्द्र सा0 सिंहोरचक थाना रुद्रपुर, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.हरेराम पुत्र भिखारी प्रसाद सा0 कतौरा थाना गौरीबाजार, देवरिया** गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना खामपार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त **01.बीजदेव पुत्र तुफान राम सा0 बनकटिया थाना कटया जिला गोपालगंज, बिहार 02.बूलेट राम पुत्र हरेराम सा0 उपरोक्त** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10-10 लीटर कुल 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता अज्ञात से 01 वाहन सं0-यूपी-21एक्यू-3099 मारुति सुजुकी से 30 पेटी बंटी बबली देशी शराब (प्रत्येक 200मिली0) बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 06.10.2020 को थानाध्यक्ष तरकुलवा के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर **कंचनपुर तिराहा** के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.जामवन्त पुत्र दमदम प्रसाद सा0 पिपरपाती थाना कोतवाली, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक **05.10.2020** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 03 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

थाना तरकुलवा- मु0अ0सं0-172/2020 धारा 302,323,504,506 भादवि जितेन्द्र उर्फ लड्डू पुत्र सीताराम प्रसाद मठिया रत्ती थाना तरकुलवा, देवरिया 02.जामवन्त पुत्र दमदम प्रसाद 03.अबरार अली पुत्र उस्ताद अली सा0 पिपरपाती थाना कोतवाली, देवरिया।

04. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 06.10.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 16 सीआरपीसी के अन्तर्गत 34 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 34 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत 06 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 06.10.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांतिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 191 वाहनों से 199500 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

